

Helpline Number
for corona-virusRajasthan
0141-
2225624/2225000
Toll Free No:
104/108National Call Center
No
+91-11-23978046
Toll Free No: 1075Whatsapp Chatbot
+911412225624Helpline Email ID
for corona-virus :
rajasthan_idsp[at]
yahoo[dot]co[dot]inCOVID Facilities in
Rajasthan
(27.06.2020) Frequently Asked
Questions on
(FAQs)Mobile Application
RSMPRSMP मोबाईल ऐप डाउनलोड
करने के लिए Q.R.Code Scan
करें।Rajasthan Teleconsultation
Services[Click Here for Main Website](#)

Novel Corona Virus (COVID-19)

Home	Travel Advisories	Behavioural Health	Citizens	Hospitals	States/Departments/ Ministries	Employees	Awareness Material
------	-------------------	--------------------	----------	-----------	--------------------------------	-----------	--------------------

1526962

Total Sample
Collected

1481949

Negative
Cases

42083

Positive
Cases

29845

Cured /
Recovered

2930

Report
Awaited

680

Cumulative
Deathश्री अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री,
राजस्थानडॉ. रघु शर्मा
माननीय चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य मंत्री,
राजस्थानडॉ. सुभाष गर्ग
माननीय चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य राज्य मंत्री,
राजस्थानDistrict Wise Status of COVID-19
Date-31.7.2020 (Time 08:30 P.M.)

S.No	District	Total Sample Received	Today's Positive	Cumulative Positive	Cumulative Recovered	Cumulative Discharged
1	AJMER	51288	90	1938	1297	1297
2	ALWAR	51466	90	3897	1654	338
3	BANSWARA	12088	26	207	130	120
4	BARAN	13016	3	138	95	95
5	BARMER	34432	0	1372	820	820
6	BHARATPUR	41298	25	2571	2116	2116
7	BHILWARA	54353	13	638	349	341
8	BIKANER	68962	42	1983	1420	1420
9	BUNDI	10179	7	136	57	57
10	CHITTORGARH	17242	10	273	215	209
11	CHURU	23097	5	670	508	508
12	DAUSA	16819	0	308	267	267
13	DHOLPUR	34931	52	1227	1041	1041
14	DUNGARPUR	44749	9	598	533	500
15	GANGANAGAR	13668	0	229	105	105
16	HANUMANGARH	15892	0	207	162	162
17	JAIPUR	177212	163	5418	4003	4003

18	JAISALMER	28228	0	188	146	146
19	JALORE	53505	1	1116	1045	1045
20	JHALAWAR	42868	35	553	436	436
21	JHUNJHUNU	22757	9	613	545	545
22	JODHPUR	245223	160	6851	4673	4668
23	KARAULI	10620	16	351	186	186
24	KOTA	101380	122	1686	946	934
25	NAGPUR	42282	0	1432	1203	1203
26	PALI	68804	96	2647	2166	2166
27	PRATAPGARH	14061	0	176	152	149
28	RAJSAMAND	22888	16	633	490	458
29	S.MADHOPUR	16598	4	197	142	142
30	SIKAR	56612	88	1063	768	768
31	SIROHI	33351	10	879	757	757
32	TONK	18354	2	274	244	244
33	UDAIPUR	63278	50	1304	1005	959
Other State/country		5461	3	188	54	54
Total		1526962	1147	41961	29730	28259
Other (Italy)		0	2	2	2	2
Evacuees		0	61	61	61	61
BSF		0	59	52	52	52
G Total		1147	42083	29845	28374	

COVID Facilities in Rajasthan

LATEST UPDATES

प्रेस-विज्ञप्ति

(Only for Private Sector)

1.(Only for Private Sector) Details of Manpower willing to work for COVID-19 patient

2. (Only for Private Sector) Details of hospital voluntarily agreeing to provide services for the treatment of COVID-19 patient

कोरोना वायरस (Corona Virus Important Letter for Department)

State Officials/incharge for COVID 19

District Officials/ incharge for 19Corona

MoHFW Website

राजस्थान - सतर्क - है

ख़तरा

शराब पीने से COVID-19 के संक्रमण से बचाव नहीं होता है। बल्कि यह किसी के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

सच

शराब पीने से COVID-19 के संक्रमण से बचाव नहीं होता है। बल्कि यह किसी के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।

COVID - 19 को रोकने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें।

राजस्थान - सतर्क - है

ख़तरा

नया कोरोना वायरस कुत्तों या बच्चों को प्रभावित करता है, चुनावों से नहीं।

सच

सभी उम्र के लोग इस वायरस (nCoV-2019) से प्रभावित हो सकते हैं। कुत्तों और पालतू जानवरों से दूरी बनाए रखें (जैसे कि अस्वस्थ, मधुमेह, दिल के मरीज) वाले संक्रमण से जल्द बस हो अव्यक्त बीमार हो जाते हैं।

COVID - 19 को रोकने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें।

राजस्थान - सतर्क - है

ख़तरा

विटामिन-सी के भरपूर सेवन से कोरोना संक्रमण को ठीक करने में मदद मिल सकती है।

सच

विटामिन-सी के नियमित सेवन से प्रतिरक्षा बढ़ती है। लेकिन, इसके अत्यधिक सेवन की सलाह नहीं दी जाती है।

COVID - 19 को रोकने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें।

राजस्थान - सतर्क - है

ख़तरा

सोशल मीडिया के एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि कोले का रस कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है।

सच

ऐसा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है।

COVID - 19 को रोकने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें।

राजस्थान - सतर्क - है

ख़तरा

कम्पायन अवधि 5 दिनों तक है।

सच

"कम्पायन अवधि" का अर्थ है वायरस के संक्रमण और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। COVID-19 के लिए कम्पायन अवधि 1-14 दिनों तक है।

COVID - 19 को रोकने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें।

राजस्थान - सतर्क - है

ख़तरा

एक चीनी चिकित्सक के मुताबिक कोरोनावायरस - का इलाज है एक कठोरी लहसुन।

सच

ऐसी जानकारी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

COVID - 19 को रोकने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें।

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें

खुद बचें दूसरों को भी बचाएं

ख़तरा

क्या घर के सदस्यों को भी आवास में दूरी रखनी है?

सच

हां! निम्नलिखित दूरी रखनी चाहिए। आवास और 1-2 मीटर के अंतर। उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और जलवायु प्रभावितों से।

COVID-19 को रोकने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें।

राजस्थान - सतर्क - है

ख़तरा

कोरोना वायरस के संकेत दिखाने दिनों में दिखाएँ हैं।

सच

सामान्य तौर पर 5 से 7 दिनों में इसके संकेत दिखाए जा सकते हैं। कई बार 14 दिनों तक का भी समय लगता है। इसी कारण 14 दिनों अवधि में घर पर ही रहना चाहिए।

COVID - 19 को रोकने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें। COVID-19 के संक्रमण से बचने के लिए सतर्क रहें और दूर रहें।

**दिल दिया है जा भी देंगे
ऐ वयन तेरे लिए**

आशा कार्यकर्ता हार नहीं जाएं
संकट काल में आज आपने क्या योगदान दिया?

ASHA workers make masks at home amid Covid battle



आइये, हम सब की किसी ना किसी रूप में अपना योगदान दें,
इस महामारी से निपटने में

COVID19 को रोकने में सुविधा दें और दूसरी को सुविधा दें
आपका योगदान है info.raghuvaran@yahoo.co.in या संपर्क करें
द्वारा 098260 88888

श्रमचरण सार्वभौम

[illegible][illegible][illegible][illegible]

कोरोना वायरस से बचाव के पाँच सबसे महत्वपूर्ण उपाय

इन उपायों की जानकारी को अपने परिवार की दूसरी भाषा में भी

1. हाथों में सेब, साबुन या 70% सेब कोशिलेन वाले तरल साबुन से अच्छी तरह धोएं।
2. यदि हाथों में सेब साबुन उपलब्ध नहीं है, तो साबुन के बिना भी हाथों को साफ करें।
3. यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है, तो उसे अलग से रखें।
4. अपने/आपकी श्वास तंत्र से दूरी बनाए रखें, यदि आप को किसी भी संक्रमित व्यक्ति से दूरी नहीं बनाए रख सकते हैं, तो उन्हें अपने घर से दूर रखें।

COVID-19 को रोकने से जुड़े पुराने और नए सुझावों को

अधिक जानकारी के लिए www.who.int/india पर जाएं।

संलग्न चित्रों में: +91-11-23230230, +91-11-23230230

#आयुधमय तर्क है

